

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 52 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः -

“52क: सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया जाना : नियम 52 में सन्निहित किसी बात के होते हुए, निम्नलिखित के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के मामले में

- (i) केंद्रीय सरकार और इसके विभाग;
- (ii) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें और उनके विभाग;
- (iii) स्थानीय सरकारी संस्थान अर्थात, नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं अथवा पंचायतें;
- (iv) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित राज्य परिवहन उपक्रम;
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम;
- (vi) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय,

ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी करने की तिथि से 15 वर्ष बीत जाने के पश्चात पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा जैसा कि धारा 41 की उप-धारा (7) में प्रदान किया गया है।”

[फा. सं. आरटी-23013/1/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांक के माध्यम से संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 177(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub sections (7) and (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2022.

In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely:-

“52A: Non-Renewal of Certificate of registration of Government Vehicles: Notwithstanding anything contained in Rule 52, in the case of motor vehicles, owned by-

- (i) Central Government and its Departments;
- (ii) State/UT Governments and their Departments;
- (iii) Local Government Institutions namely, the Municipal Corporations or Municipalities or Panchayats;
- (iv) State Transport Undertakings established under the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (v) Public Sector Undertakings;
- (vi) Autonomous bodies with the Central Government and State Governments,

the certificate of registration shall not be renewed after the lapse of fifteen years, as provided in Sub section (7) of Section 41, from the date of such certificate.”

[F. No. RT 23013/1/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated ____.

Communicate the draft rules to all the officers concerned for information and for submitting objections or suggestions, if any, on the draft rules within the time limit specified. 15/3/2021.